

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**सराहनीय कार्य साइबर क्राइम सैल जनपद एटा**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदयशंकर सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री ओमप्रकाश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर सैल एटा द्वारा आनलाइन उगी का शिकार हुए शिकायतकर्ता श्री बिजितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनरेश निं०-मौहल्ला गोविन्ददास कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा ने प्रार्थना पत्र संख्या 179/21 साइबर क्राइम सैल की रिपोर्ट के अनुसार, थाना अलीगंज एटा में पंजीकृत मुआ०स०-२७८/२१ धारा ४२० भादवि व ६६ डी आईटी एकट के माध्यम से अवगत कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करके ७५००० रुपये निकाल लिये हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा द्वारा साइबर सैल की टीम को प्रकरण की जांच कर शिकायतकर्ता की समुचित मदद करने हेतु निर्देशित किया गया। साइबर सैल एटा द्वारा मामले की गंभीरता से जांचकर त्वरित व लाभप्रद कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक तक को पीड़ित की उगी गई धनराशि ७५००० रुपये की बड़ी रकम को पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराया गया है। अपने पैसे वापस पाकर पीड़ित द्वारा एटा पुलिस को धन्यवाद देते हुए भूरि भूरि प्रशंसा की गई है।

**साइबर क्राइम सैल टीम जनपद एटा**

१. उ०नि० अरविन्द कुमार सिवाल, प्रभारी
२. आरक्षी अजयपाल सिंह
३. आरक्षी अर्जुन सिंह
४. म० आरक्षी प्रंयका सिंह

**\*\*\* साइबर सैल एटा द्वारा साइबर उगी से बचने हेतु आमजन को संदेश\*\*\***

०१- किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नम्बर उस कम्पनी के आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें क्योंकि आजकल साइबर उगी द्वारा अपने नम्बरों को विभिन्न आनलाइन कप्पनियों के कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर अपडेट किया गया है।

०२- कोई भी बैंक अधिकारी फोन पर कभी भी आपसे एटीएम खाते क्रेडिट कार्ड अन्य से सम्बन्धित जानकारी नहीं मांगता इसलिए कभी भी फोन काल पर अपने बैंक से सम्बन्धित जानकारी शेयर ना करें।

०३- किसी भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेते/देते समय यह अवश्य चेक करें कि क्यूआर कोड पेमेंट रिसीव करने वाला है।